

August 19, 2017

To,

The Manager (Listing)

BSE LIMITED

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Code: 532290

To,

The Manager (Listing)

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051

Scrip Code: BLBLIMITED

Sir/Madam,

Sub.: Submission of the Newspaper Advertisement - 36th Annual General Meeting

Pursuant to Regulation(s) 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we request you to kindly find enclosed herewith copies of Public Notice by way of Newspaper Advertisement published by the Company in "**Financial Express**" (*English, all editions*) and "**Jansatta**" (*Hindi, local edition*) dated 19.08.2017.

Kindly place the above information on records.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For **BLB LIMITED**


(ABHA GARG)
COMPANY SECRETARY



M. No. : A38787
Place : New Delhi
Encl : a/a

BLB Limited

CIN : L67120HR1981PLC051078
Corporate Member : NSE & BSE

Corporate Office : H.No. 4760-61, 3rd Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002 Tel : 011-49325600. Fax : 011-49325637
Registered Office : SCO (Shop Cum Office) No.22, Spring Field Colony, Extension No.1, Near Sector 31-32, Faridabad-121003, Haryana
Website : www.blblimited.com, Email : infobl@blblimited.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon K Goregaon (E), Mumbai - 400063. Tel: 022

Notice to the Unit holders of ICICI Prudential Plan A

NOTICE is hereby given that pursuant to SEBI dated June 20, 2014, ICICI Prudential Interval (the Scheme), a debt oriented interval scheme including plans/options thereunder, has been closed on August 18, 2017 on account of not meeting Under Management.

For ICICI Prudential A

Place: Mumbai

Date : August 18, 2017

No. 016/08/2017

CALL MTNL/BSNL: 1800 222 999 • Others : 1800 200 6

Mutual Fund investments are subject to related documents carefully.



ICICI Prudential Asset Management
Corporate Identity No.

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Corporate Office: One BKC 13th Floor, Bandra
Tel: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 810
email id: enquiry@icici

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon K Goregaon (E), Mumbai - 400063. Tel: 022

NOTICE-CUM-ADDENDUM to the Scheme Information Memorandums (KIMs) of the scheme

Investors are requested to note that with respect to schemes on "Who Can Invest" dealing with investment the AMC may accept joint applications with applicants provide the relevant documents, as prescribed by AMC, from time to time.

All the other provisions of the SIDs/KIMs as modified herein above remain unchanged.

This Notice-cum-addendum forms an integral part as amended from time to time.

For ICICI Prudential A

Place: Mumbai

Date : August 18, 2017

No. 014/08/2017

CALL MTNL/BSNL: 1800 222 999 • Others : 1800 200 6

Mutual Fund investments are subject to related documents carefully.



IOL CHEMICALS AND P
Regd. Office : Trident Complex, Ra

CIN : L24116PB1986PLC007

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS F

BLB LIMITED



CIN: L67120HR1981PLC051078

Regd. Office: SCO (Shop Cum Office) No. 22, Spring Field Colony, Extn No. 1, Near Sector 31-32, Faridabad - 121003, Haryana
Email ID: infobl@blblimited.com, Website: www.blblimited.com
Tel.: 011 - 49325600

NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and applicable provisions of Companies Act, 2013 ("the Act"), if any, and Rules made thereunder, "Notice" is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of BLB Limited is scheduled to be held on Saturday, September 16, 2017 at 11:00 A.M. at Magpie Tourist Resort, a unit of Haryana Tourism Corporation Ltd., Sector 16A, Mathura Road, Faridabad-121002, Haryana to transact business mentioned in the Notice convening AGM.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 ("the Rules") as amended from time to time, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed for one day viz. Saturday, September 09, 2017 for the aforesaid AGM.

Electronic copies of the Annual Report for the financial year 2016-17 along with the Notice convening 36th AGM have been sent to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s), unless a member has requested for physical copy of the same. Other than the members whose e-mail addresses are not registered with the Company/ Depository Participant(s), physical copies of the above mentioned documents have been sent at their Registered address in the permitted mode.

In compliance with the Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules as amended from time to time, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL), on all resolutions proposed to be considered at the aforesaid AGM.

Further, the facility for voting through Ballot paper/ polling paper shall be made available at the AGM.

All members are hereby informed that:

- the Businesses as set out in the Notice of 36th AGM of the Company may be transacted through voting by electronic means,
- the remote e-voting period commences on Wednesday, September 13, 2017 (9:00 A.M. IST),
- the remote e-voting period ends on Friday, September 15, 2017 (5:00 P.M. IST),
- cut - off date : Saturday, September 09, 2017,
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut off date, may obtain the login ID and password by sending a request to the contact person mentioned in point no. (viii).
- The members may note that -
 - Remote e-voting shall not be allowed beyond Friday, September 15, 2017 (5:00 P.M. IST).
 - The facility for voting through Ballot paper/ polling paper shall be made available at the AGM of the Company and members attending the AGM who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM,
 - A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM through Ballot paper; and
 - A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cutoff date shall only be entitled to avail the facility of remote e - voting as well as voting at the AGM.
- The Notice of 36th AGM of the Company along with the Annual Report, Attendance Slip, Proxy Form is available on the Company's website i.e. www.blblimited.com and NSDL's website i.e. www.evoting.nsdl.com and
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatra, Assistant Manager, NSDL at:
 - Tel.: 022-24994545 or toll free no.: 1800-222-990
 - Email i.d.: pallavi@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in

The information contained in this notice shall also be available on the website(s) of BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For BLB Limited
Sd/-
(Abha Garg)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 18.08.2017

refused to di-
f communica-
countries to India
issue.
t a clash be-
troops and In-
ards in Ladakh
5, the MEA

and another one at Nathu La a week before.

Asked about a video, posted by Chinese state-run media, which portrayed Indians in a very poor taste, he said he does not want to "dignify" it with a response.

Incidents not in India or China: MEA

ther side".

Today, I can confirm there was an incident at Pangong Tso on August 15. This was subtly discussed by local army command of the two sides.

Such incidents are in the interest of both sides. We should maintain peace and tranquillity," external affairs ministry spokesperson Raveesh Kumar said.

However, he did not confirm whether the incident involved stone pelting or use of rods and asserted that, "I just said there was an incident."

He also emphasised that the incident should not be linked with what was happening in any other sector.

Kumar also did not confirm whether Prime Minister Narendra Modi will travel to China next month to attend Brazil-Russia-India-China-South Africa (BRICS) summit, saying he does not have any information about it.

Asked about the current status of the standoff, he said, "It is a sensitive issue... We will

continue to engage with China to find mutually acceptable solution. Peace and tranquillity in border areas are important pre-requisites for smooth development of bilateral relations."

However, he quipped, "I am not an astrologer, so cannot predict", when asked by when the Doklam standoff will be resolved.

In the context of the Ladakh incident, he said two border personnel meetings (BPMs) had taken place between Indian border guards and Chinese troops recently.

He said one BPM had taken place at Chushul on August 16 and another one at Nathu La a week before.

Asked if China has shared hydrological data with India in the backdrop of floods in Assam, Kumar said there is an existing expert-level mechanism, established in 2006, and there are two MoUs under which China is expected to share hydrological data on rivers Sutlej and Brahmaputra with India during the flood season of May 15 to June 15.

"For this year, we have not received hydrological data from the Chinese side," the spokesperson said. However, he added that it was "premature" to link it with the floods in Assam as there can be "technical reasons" behind China not sharing the data.

बल लिमिटेड

980PLC010428
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया
ए-11-110020
www.bllimited.com

अनधिकृत वित्तीय परिणाम
www.bseindia.com पर भी

अनधिकृत वित्तीय परिणाम
www.bseindia.com पर भी

INDUSTRIES LIMITED
1990PLC041970
Enclave, Part-III,
New Delhi-110059
393@gmail.com
1-43310000

NOTICE

Notice is hereby given that the General Meeting of the Company will be held on Saturday the 26th of August, 2017 at 11:00 AM at 11-128-129 (Top Floor) Industrial Area, Okhla, New Delhi, to transact the business as detailed in the Notice to the members of the Company. The books of the Company are also hereby closed from section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the Companies (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 that the books of the Company will remain closed from 26th September 2017 to 26th October 2017 (both days

along with Notice said meeting has been dispatched to the members of the Company. Order of the Board of Directors
K.N. Shastri
Managing Director

बीएलबी लिमिटेड
CIN: L67120HR1981PLC051078
पंजी. कार्या: एससीओ (दुकान सह कार्यालय) नं. 22, सिंग फील्ड कॉलोनी, एक्सटेंशन नं. 1, नियर सेक्टर 31-32, फरीदाबाद - 121003, हरियाणा
ईमेल आईडी: info@bblb.com, वेबसाइट: www.bblb.com
फोन: 011-49325600

36वीं वार्षिक आम बैठक, रिपोर्ट ई-वोटिंग और बुरुक बसोडर की सूचना

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 ("सूचीयन विनियमन") के विनियमन 47 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधान, यदि कोई हो, एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में "सूचना" दी जाती है कि बीएलबी लिमिटेड की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 16 सितम्बर, 2017 को प्रातः 11:00 बजे, मैगधी ट्यूबिस्ट रिजॉर्ट हरियाणा पर्यटन निगम लि. की एक यूनिट, सेक्टर 16ए, मधुरा रोड, फरीदाबाद-121002, हरियाणा में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम के आयोजन की सूचना में वर्णित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा।

एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित नियम 10 कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुपालन में, उपरोक्त एजीएम के लिए, रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण खाते एक दिन अर्थात् शनिवार, 09 सितम्बर, 2017 को बंद रहेंगे।

36वीं एजीएम के आयोजन की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सदस्यों जिन्होंने इसकी भौतिक प्रतियां के लिए अनुरोध किया है, को छोड़कर उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों को ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है, उन्हें उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां स्वीकार्य पद्धति में उनके पंजीकृत पंजी पर भेजी जा चुकी है।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित समय-समय पर यथा संशोधित के नियम 20 और सूचीयन विनियमन के विनियम 44 के अनुसरण में, कम्पनी अपने सदस्यों को कथित एजीएम में विचार के लिए प्रस्तावित सभी प्रस्तावों को नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ई-वोटिंग सर्विस के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रस्ताव है।

इसके अलावा, एजीएम में बैलेट पेपर/पूलिंग पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:

- कम्पनी की 36वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित कारोबार पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की कार्यवाही की जा सकती है;
- रिपोर्ट ई-वोटिंग अर्थात् बुधवार, 13 सितम्बर, 2017 (प्रातः 9.00 बजे मा.मा.स.) से आरंभ हो रही है;
- रिपोर्ट ई-वोटिंग अर्थात् शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2017 (सायं 5.00 बजे मा.मा.स.) को समाप्त हो रही है;
- कट-ऑफ तिथि: शनिवार, 09 सितम्बर, 2017;
- कोई व्यक्ति, जो कम्पनी के शेयर को अधिग्रहण करता है तथा नोटिस के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, तो प्वाइंट नं. (viii) में उल्लिखित संपर्क व्यक्ति को एक अनुरोध भेजकर लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- सभी सदस्य नोट करें कि:
 - शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2017 (सायं 5.00 बजे मा.मा.स.) के बाद रिपोर्ट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी;
 - बैलेट पेपर/मतपत्र के माध्यम से वोट देने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित वे सदस्य जिन्होंने पहले ही रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वे एजीएम में अपना वोट डाल सकते हैं;
 - रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं किंतु उन्हें बैलेट पेपर के माध्यम से एजीएम में फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और
 - कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है वही रिपोर्ट ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोट देने की सुविधा पाने के हकदार होंगे;
- वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति पत्र, प्रॉक्सी फार्म के साथ 36वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.bblb.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है; और
- किसी भी पृष्ठपत्र के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए रिपोर्ट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें या सुभी पल्लवी महाराज, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से निम्नलिखित पर संपर्क करें:
 - फोन नं.: 022-24994545 और टोल फ्री नं.: 1800-222-990
 - ई-मेल आईडी: pallavi@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in

इस सूचना में निहित जानकारी बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।

कृते बीएलबी लिमिटेड
हस्ता/-
(आभा गगन)
कम्पनी सचिव
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.08.2017

CL EDUCATE LIMITED
Registered and Corporate Office: A-41, Espire Building, Lower Ground Floor, Mohan Co-operative Industrial Area, Main Mathura Road, New Delhi -110044
Tel: +91 (11) 4128 1100. E-mail: compliance@cleducate.com
Website: www.cleducate.com CIN: U74899DL1996PLC078481

NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Thursday, August 24, 2017 at 03:30 PM at PHD Chamber of Commerce and Industry, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110016**, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) along with Limited Review Report for the quarter ended June 30, 2017.

The information is also available on the website of the Company (www.cleducate.com) and on the BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For and on behalf of CL Educate Limited
Sd/-
Sudhir Bhargava, CFO
Place: New Delhi
Date: August 17, 2017

कोठारी फर्मन्टेशन एंड बायोकेम लिमिटेड
CIN: L72411DL1990PLC042502
पंजी. कार्यालय: 16, कम्प्यूनिटी सेन्टर, प्रथम तल, साकेत, नई दिल्ली-110017
Tel: 011-26850004, Fax: 011-41664840, E-Mail: kfbl@airtelmail.in
Website: www.kothariyeast.in

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोलिखित शेयर प्रमाणपत्रों के गुप्त होने/ खो जाने/ चोरी हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है तथा उसके पंजीकृत धारकों/ दावेदारों ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कम्पनी के पास आवेदन किया है:

क्रम सं.	फोलियो नं.	शेयरधारक का नाम	विशिष्ट सं.	प्रमाणपत्र नं.	शेयरों की संख्या
1.	19602	नयीम कोकण	2721611-2721710	17268	100

कम्पनी ने इन शेयर प्रमाणपत्रों के गुप्त होने के विषय में उन स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचित कर दिया है जहां ये शेयर सूचीबद्ध हैं।

यदि किसी व्यक्ति (यों) का इन शेयर प्रमाणपत्रों के संदर्भ में कोई दावा हो, वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर कम्पनी सचिव को लिखें।

यदि उक्त 15 दिनों के भीतर कोई आपत्ति नहीं होती है तो कम्पनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यवाही करेगी। डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के बाद मूल शेयर प्रमाणपत्र निरस्त हो जाएगा तथा मूल शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के साथ यदि कोई कारोबार करते हैं तो ऐसा वे अपने स्वयं की जोखिम, लागत तथा परिणामों पर करेंगे तथा कम्पनी किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगी।

कोठारी फर्मन्टेशन एंड बायोकेम लिमिटेड के लिए
स्थान: नई-दिल्ली
तिथि: 18.8.2017
हस्ता/-
कविता तैवर (कम्पनी सचिव)

PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO SEBI CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016
GAJENDRA KUMAR MITTAL ("OFFERING PROMOTER")
Address: G-38, Masjid Moth, Greater Kailash -II, New Delhi 110048,
Tel. No.: 011-47015959, Email: godrichfinance@gmail.com

This public announcement is being issued by Mr. Gajendra Kumar Mittal ("Offering Promoter"), one of the promoter of Godrich Finance and Securities Limited ("the Company" or "Godrich" or "ELC") on behalf of promoter and promoter group to the public shareholders of Godrich in accordance with the SEBI Circular No. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 dated October 10, 2016.

BACKGROUND OF THE COMPANY

Godrich Finance and Securities Limited were incorporated on 22nd day of August 1983 under the Companies Act, 1956. The CIN of the Company is U65993DL1983PLC016392 and the registered office of the Company is presently situated at E-588, Skylink, Greater Kailash-II, New Delhi- 110048. The Company is engaged in the business of making Investment in the quoted and unquoted securities.

The Equity Shares of the Company were listed at Delhi Stock Exchange Limited ("DSE") & Ahmedabad Stock Exchange Limited ("ASE") but pursuant to SEBI order WTM/PS/45/MRD/DSA/NOV/2014 dated November 19, 2014 the recognition of DSE was withdrawn & ASE is non operational Stock Exchange, the Company lost its status as a Listed Company and has been referred to the Dissemination Board ("DB") of BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange Limited ("NSE").

The proposed Exit offer for Equity Shares will be succeeded by removal of the Company's name from Dissemination board of BSE Limited ("BSE") in accordance with SEBI Circular.

OFFER DETAILS & OTHER INFORMATION

Offer Size: The Offering Promoter of the Company hereby makes this offer to all the Public